

तुरंत रिलीज के लिए

वसंत के सीजन की शुरुआत, आभासी सीडी सैटर्डे और गार्डन शो के साथ करें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 मार्च, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का 9^{वां} सालाना सीडी सैटर्डे (Seedy Saturday) और गार्डन शो (Garden Show), इस वर्ष, शनिवार, 13 मार्च, सुबह 10 बजे से शुरू करते हुए ऑनलाइन होगा!

2021 का आभासी (वर्चुअल) सीडी सैटर्डे और गार्डन शो, ब्रैम्पटन हॉर्टिकल्चरल सोसायटी (Brampton Horticultural Society) के साथ साझेदारी में पेश किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित, पर्यावरणीय विशेषज्ञों के बागबानी संबंधी वीडियो पेश किए जाएंगे:

- स्कूल फूड गार्डन्स (School Food Gardens) के बारे में एलिसन ईडी (Allison Eady)
- हेरिटेज फ्लावर गार्डन्स (Heritage Flower Gardens) के बारे में बॉब विल्डफोंग (Bob Wildfong)
- बिगिनर्स गाइड टू ग्रोइंग फूड (Beginners Guide to Growing Food) के साथ फ्रैंक फेराजिन (Frank Ferragine)
- ब्रिंगिंग बटरफ्लाइज होम टू ब्रैम्पटन (Bringing Butterflies Home to Brampton) के बारे में जोड रॉबर्ट्स (Jode Roberts)
- ग्रोइंग एंड यूजिंग हर्ब्स (Growing and Using Herbs) के बारे में लॉरेन बोश (Lauren Bosch)
- हेयरलूमस एंड सीड सेविंग (Heirlooms and Seed Saving) के बारे में लिंडा क्रैगो (Linda Crago)
- एडिबल्स इन अर्बन लैंडस्केप्स (Edibles in Urban Landscapes) के बारे में स्टीवन बिग्स (Steven Biggs)
- मैनेजिंग इन्वेसिव प्लांट्स इन योर गार्डन (Managing Invasive Plants in Your Garden) के बारे में विककी सिमकोविक (Vicki Simkovic)

चाहे आप बागबानी में नए हैं या आपको इसका अनुभव है, 13 मार्च को पूरा दिन www.brampton.ca/seedysaturday देखें। इसमें आपको बागबानी संबंधी संसाधनों तक पहुंचने, लोकल बागबानी विक्रेताओं से जुड़ने, प्रिंट करने योग्य गतिविधियों और वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ किडज़ ज़ोन (Kids Zone) का मज़ा लेने और यह सीखने का अवसर मिलेगा कि ब्रैम्पटन हॉर्टिकल्चरल सोसायटी के साथ कर्बसाइड (पगडंडी के किनारे से वस्तुएं लेना) बीज अदला-बदली करने में कैसे हिस्सा लेना है।

यह कार्यक्रम, [ब्रैम्पटन हॉर्टिकल्चरल सोसायटी \(Brampton Horticultural Society\)](http://www.brampton.ca/seedysaturday) के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है और सीड्स ऑफ डायवर्सिटी (Seeds of Diversity) द्वारा समर्थित है।

हवाले

“मैं हर किसी को प्रोत्साहित करता हूँ कि, 13 मार्च को इस वर्ष का आभासी सीडी सैटर्डे और गार्डन शो देखें! ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और यह हमारी बायोडायवर्सिटी की स्थिरता और महत्व पर केंद्रित है। इस रोमांचक और शिक्षात्मक कार्यक्रम में, भोजन संबंधी स्थिरता के बारे में जानें, विशेषज्ञों के सुझाव और संसाधन देखें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चाहे इस वर्ष हम, सीडी सैटर्ड और गार्डन शो का आनंद लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम, वसंत में पौधे उगाने और हमारे शहर को हरा-भरा रखने के बारे में सीखने के लिए, हमारे समुदाय के साथ लाने का यकीन दिलाता है।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हर स्तर की विशेषज्ञता वाले बागबानी करने वालों को, आभासी सीडी सैटर्ड और गार्डन शो में आमंत्रित किया जाता है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के पेश किए गए वीडियो के साथ-साथ – लोकल बागबानी विक्रेताओं से जुड़े, बच्चों के लिए गतिविधियाँ आदि तक पहुंच प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।”

- *शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हम 9^{वां} सालाना सीडी सैटर्ड और गार्डन शो, पहली बार ब्रैम्पटन होर्टिकल्चरल सोसायटी के साथ पेश करने के लिए उत्साहित हैं। आएँ और बागबानी, स्थिरता के बारे में और यह सीखें कि आप हमारे समुदाय में अधिक ईको-फ्रेंडली तरीके से कैसे रह सकते हैं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca